



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 माघ, 1941 (श०)

संख्या- 55 राँची, बुधवार,

29 जनवरी, 2020 (ई०)

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

17 जनवरी, 2020

अधिसूचना संख्या - 2/वि.1-11/2019- 01-- निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांगजन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्या-49) के तहत झारखण्ड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में एवं विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए निःशक्तजनों के आरक्षण से सम्बंधित प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-2249, दिनांक 03.04.2018 के द्वारा किया गया है।

उक्त संकल्प की कंडिका-11 (आयु सीमा में छूट) निम्नवत है :-

“विभिन्न प्रकार की निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के नामांकन में आयु सीमा की छूट का निर्धारण उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग द्वारा किया जायेगा, जबकि सेवा में प्रवेश की आयु में छूट का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जायेगा”।

चूंकि निःशक्त (दिव्यांगजन) व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्या-49) की धारा-32 (2) के अनुसार विनिर्दिष्ट निःशक्तता (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से

कम नहीं) से ग्रसित व्यक्तियों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की अधिकतम आयु में 5 वर्षों की छूट दी जानी है।

अतः निःशक्त (दिव्यांगजन) व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्या-49) की धारा-32 (2) एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-2249, दिनांक 03.04.2018 की कंडिका-11 (आयु सीमा में छूट) के आलोक में उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के अंतर्गत संचालित सभी सरकारी संस्थानों, सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे अन्य शिक्षण संस्थानों तथा निजी संस्थानों सहित में प्रवेश/ नामांकन की अधिकतम आयु सीमा में विनिर्दिष्ट निःशक्तता/ दिव्यांगजन (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से कम नहीं) से ग्रसित व्यक्तियों के लिए 5 वर्षों की छूट दी जाय।

ह०/-

शैलेश कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव
